



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 82]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 19, 1979/माघ 30, 1900

No. 82]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 19, 1979/MAGHA 30, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1979

का. आ. 98(अ).—निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 7 के साथ पठित पैरा 6 के अधीन अरुणाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र में पीपल्स पार्टी आफ अरुणाचल मार्च, 1978 में हुए अरुणाचल प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन में प्राप्त किए गए अपने मतों के परिणाम स्वरूप उस राज्य में एक राज्याय वल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिये हकदार हैं ;

और, निर्वाचन आयोग ने अपने एक प्रथम आदेश द्वारा यह विनिश्चय किया है कि अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में "मिथुन" प्रतीक को एक मुक्त प्रतीक के रूप में पुनः चालू कर दिया जाए, और इसने "मिथुन" प्रतीक को अरुणाचल प्रदेश की पीपल्स पार्टी आफ अरुणाचल के लिए आरक्षित भी कर दिया है ;

अतः, अब, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैराग्राफ 17 के उप-पैरा (1) के खण्ड (ख) तथा उप-पैरा (2) के अनुसरण में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3(2), तारीख 25 जनवरी, 1978 में का. आ. 40(अ) के रूप में प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित अपनी तारीख 25 जनवरी, 1978 की अधिसूचना सं. 56/78 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्—

(1) उक्त अधिसूचना की सारणी 2 में पश्चिमी बंगाल में सम्बन्धित प्रविष्टियों के साथ निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी—

"अरुणाचल प्रदेश पीपल्स पार्टी आफ मिथुन"  
अरुणाचल

[सं. 56/79]

## ELECTION COMMISSION OF INDIA NOTIFICATIONS

New Delhi, the 19th February, 1979

S.O. 98(E).—Whereas the Election Commission is satisfied that as a result of its poll performance at the general election to the Legislative Assembly of Arunachal Pradesh held in March, 1978, the People's Party of Arunachal in the Union territory of Arunachal Pradesh is entitled for recognition as a State Party in that Union territory in terms of paragraph 6 read with paragraph 7 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968;

And whereas the Election Commission has decided by a separate Order that the symbol 'Mithun' be restored as a free symbol in relation to the Union territory of Arunachal Pradesh, and further it has reserved the symbol 'Mithun' for the People's Party of Arunachal in Arunachal Pradesh;

Now, therefore, in pursuance of clause (b) of sub-paragraph (1) and sub-paragraph (2) of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, the Election Commission hereby makes the following amendments to its notification No. 56/78(1), dated the 25th January.

1978, published as S.O. 40(E) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(ii), dated 25th January, 1978, as amended from time to time, namely :—

- (1) In table 2 of the said notification, after the entries relating to West Bengal, the following entries shall be inserted, namely :—

"Arunachal Pradesh      People's Party      Mithun"  
of Arunachal

[No. 56/79]

**क्र. आ. 99(अ).**—निर्वाचन आयोग ने अपनी तारीख 19 फरवरी, 1979 की अधिसूचना सं. 56/79 के अनुसार पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल को अरुणाचल प्रदेश में एक राज्याीय दल के रूप में मान्यता दे दी है।

अतः अब, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैराग्राफ 17 के उप-पैरा (1) के खण्ड (ग) और उप-पैरा (2) के अनुसरण में भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खण्ड 3(2), तारीख 25 जनवरी, 1978 में का. आ. 41(अ) के रूप में प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित अपनी 25 जनवरी, 1978 की अधिसूचना सं. 56/78(1) निम्नीलिखित संशोधन करता है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी में "21. पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल - - - - अरुणाचल प्रदेश" प्रविष्टि हटाई जाएगी और 22 से 41 तक की विद्यमान प्रविष्टियाँ क्रमशः 21 से 40 तक के रूप में पुनः संख्यांकित की जाएंगी।

[सं. 56/79(1)]

आदेश से,

वी. नागसुब्रमण्यन, सचिव

**S.O. 99(E).**—Whereas the Election Commission has recognised the People's Party of Arunachal as a State Party in the State of Arunachal Pradesh vide its notification No. 56/79, dated 19 February, 1979;

Now, therefore, in pursuance of clause (c) of sub-paragraph (1) and sub-paragraph (2) of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, the Election Commission hereby makes the following amendments to its notification No. 56/78(1), dated 25th January, 1978, published as S.O. 41(E) in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3(ii), dated 25th January, 1978, as amended from time to time, namely:—

In the Table, appended to the said notification, the entry "21. People's Party of Arunachal . . . . Arunachal Pradesh", shall be deleted and the existing entries 22 to 41 shall be renumbered as 21 to 40 respectively.

[No. 56/79(1)]

By Order,

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.